

उदाहरण II	
केसीसी सीमा का निर्धारण	
1. एक वर्ष में एकल फसल उगाने वाले सीमांत किसान	
1. अवधारणाएं : 1. जोत भूमि : 1 एकड़ 2. उगाई गई फसल: धान (वित्त की मात्रा अधिक प्रति एकड़ फसल बीमा : ₹ 11,000) 3. फसल के पैटर्न में 5 वर्ष के लिए कोई बदलाव नहीं है। 4. संबद्ध गतिविधियां जिनका वित्तपोषण किया जाना है - एक अवर्गीकृत (नॉन डिस्क्रिप्टीव) दुधारु पशु (यूनिट लागत : ₹ 15,000)	
2. कार्ड सीमा का निर्धारण : (i) फसल ऋण घटक (धान की 1 एकड़ की खेती की लागत) : ₹ 11,000 जोडिए : फसलोत्तर/घरेलू खर्च/खपत के प्रति 10% : ₹ 1,100 जोडिए : फार्म के रखरखाव के प्रति 20% : ₹ 2,200 प्रथम वर्ष के लिए कुल फसल ऋण सीमा(ए1) : ₹ 14,300 (ii) मीयादी ऋण घटक दुधारु पशु की लागतबी : ₹ 15,000 प्रथम वर्ष की संमिश्र केसीसी सीमा : (ए1) + (बी) : ₹ 29,300	
दूसरा वर्ष : फसल ऋण घटक : ए1 अधिक लागत वृद्धि/वित्त की मात्रा में बढ़ोतरी के प्रति फसल ऋण सीमा (ए1) का 10% [14,300+(14,300 का 10%= 1,430)]ए2 : ₹ 15,730 दूसरे वर्ष की संमिश्र केसीसी सीमा : ए2 + (बी) (15,730+15,000) : ₹ 30,730	
तीसरा वर्ष : फसल ऋण घटक : ए2 अधिक लागत वृद्धि/वित्त की मात्रा में बढ़ोतरी के प्रति फसल ऋण सीमा (ए2) का 10% [15,730+(15,730 का 10%= 1570)]ए3 : ₹ 17,300 तीसरे वर्ष की संमिश्र केसीसी सीमा : ए3 + (बी) (17,300 + 15,000) : ₹ 32,300	
चौथा वर्ष : फसल ऋण घटक : ए3 अधिक लागत वृद्धि/वित्त की मात्रा में बढ़ोतरी के प्रति फसल ऋण सीमा (ए3) का 10% [17,300+(17,300 का 10% = 1730)]ए 4 : ₹ 19,030 चौथे वर्ष की संमिश्र केसीसी सीमा : ए4 + बी (19,030 + 15,000) : ₹ 34,030	

पांचवा वर्ष :

फसल ऋण घटक :

ए4 अधिक लागत वृद्धि/वित्त की मात्रा में बढ़ोतरी के प्रति फसल ऋण सीमा (ए4) का 10%

$[19,030 + (19,030 \text{ का } 10\% = 1,900)]$ ए5 : ₹ 20,930

पांचवे वर्ष की संमिश्र केसीसी सीमा : ए5 + बी (20,930 + 15,000) : ₹ 35,930

अधिकतम अनुमत सीमा/

संमिश्र केसीसी सीमा

जैसे

: ₹ 36,000

टिप्पणी: ऊपर दिए गए सभी लागत अनुमान उदाहरण स्वरूप हैं। क्रेडिट सीमा को अंतिम रूप देते समय सिफारिश की गई वित्त की मात्रा/यूनिट लागत को हिसाब में लिया जाए।